

## Z80-K440.21 S5A ER16 vs/IP

वायुचलित टेपर परिवर्तन

आइटम नंबर 10404150

उच्च गति की मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, एनग्रेविंग के लिए HF-स्पिंडल

### स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग) 4

जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण) अनुरक्षण से मुक्त

### मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी 3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव  
(ब्रशरहित और सेंसररहित)

आवृत्ति 1.333 HZ

मोटर ध्रुवों (जोड़ों) की संख्या 2

मूल्यांकित गति 40.000 rpm

त्वरण / मंदी 10 000 rpm  
प्रति सेकंड (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)


### विद्युत शक्तिमान

ठंडा तरल पदार्


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पावर	5,8	3	2,6	[kW]
टॉर्क	1,43	0,82	0,67	[Nm]
वोल्टेज	330	270	260	[V]
धारा	19	11	10	[A]

**Z80-K440.21 S5A ER16 vs/IP**

वायुचलित टेपर परिवर्तन  
आइटम नंबर 10404150



माप



पॉवर चित्र

ठंडा तरल पदार्

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है

**सुविधाएं**

इंजन गति सेंसर	ट्रंसमीटर (TTL) सिग्नल = 6
मोटर सुरक्षा	PTC 160° C
हाउज़िंग	स्टेनलेस स्टील
हाउज़िंग व्यास:	80 मिमी
कूलिंग	ठंडा तरल पदार्थ
ऑपरेटिंग परिवेश के तापमान	+ 10° C ... + 45° C
सीलिंग हवा	
सुरक्षा (सीलिंग एयर चालू की गई)	IP65
शंकु सफाई	
विद्युतस्थैतिक डिस्चार्ज (ईएसडी) बचाव	
औजार विनियम	वायुचलित टेपर परिवर्तन
उपकरण का स्थिरता	WK 19
चक प्रकार	ER 16
तक चकिंग क्षमता	10 मिमी (25/64" )
दक्षिणावर्त	
मेल संयोजक	9-पिन (SpeedTEC)
भार	~ 5,8 किग्रा
रेडियल रनआउट आंतरिक शंकु	< 1 μ
रन-आउट (ठहरना)	< 1 μ